

14 सितंबर, 2020

विजिटर सर्कुलर

माननीय विजिटर,

जीजेईपीसी पहला IIJS वर्चुअल शो 2020 का आयोजन अक्टूबर 2020 कर रहा है

जीजेईपीसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हमें उम्मीद है कि आपका परिवार व ऑफिस स्टॉफ के सदस्य स्वस्थ व सुरक्षित हैं।

हम सभी इस बात से अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण परिस्थिति अभी भी अनिश्चित है। वर्तमान हालातों को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य व देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से सामान्य करना ही सरकार की प्राथमिकता है।

'चुनौतियों को अवसर में बदलना' ही वर्तमान समय की मांग है, जिसके चलते वर्चुअल ट्रेड शो व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए शानदार अवसर है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जीजेईपीसी ने एक बार फिर से रत्न तथा आभूषण उद्योग जगत को सामान्य करने व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए **IIJS वर्चुअल शो 2020** का आयोजन करने की योजना बना रहा है। हालांकि फिजिकल शो आज भी एक आदर्श मंच है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पैदा हुयी अनिश्चितता को देखते हुए IIJS वर्चुअल शो 2020 शो सही मंच साबित हो सकता है।

IIJS वर्चुअल ट्रेड शो उत्पादों और सेवाओं के नवाचारों और नए पुनरावृत्तियों से सुसज्जित होगा, शो की डिजाइन इस तरह से की गयी है कि IIJS फिजिकल शो की तरह ही अनुभव देगा। वर्चुअल ट्रेड शो न केवल संसाधनों को बचाने में मदद करेगा, यह एक क्लिक पर मूल्यवान समय और विभिन्न सेवाओं तक आसान पहुंच भी बनाएगा। यही नहीं, यह सीमाओं से परे व्यापार के अवसरों को तक पहुंच बनाने, डिजिटलीकरण और व्यापार के विभिन्न नए मार्गों को गति देगा।

IIJS वर्चुअल ट्रेड शो को विशेष रूप से निर्मित स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर है जो सुरक्षित, अद्भुत और नवाचार से सुसज्जित होगा।

मुख्य विशेषताएं –

- 500 + ज्वैलरी एक्जिबिटर
- एक्जिबिटर्स के साथ प्री-फिक्स अपॉइंटमेंट
- एक्जिबिटर्स के उत्पादकों की कैटलॉग और ब्रोचर डिस्पले
- लाइव चैट व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- नॉलेज सेमिनार

मुख्य लाभ

- आसानी से पंजीकरण प्रक्रिया
- 500+ से अधिक ज्वैलरी मैनुफैक्चरर्स व ट्रेड्स से सीधे संपर्क
- एक्जिबिटर्स की सुविधा के अनुसार उनके घर या ऑफिस से वन टू वन ऑनलाइन मीटिंग
- अपने कलिंगस से बातचीत और नए पार्टनर से मिलना
- एक व्यवसायी योजना को बनाएं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ लाभदायक अनुबंध करें।
- वर्चुअल बैठक में नवीनतम ट्रेड्स के बारे में विशेषज्ञों की सलाह लें
- आसान प्रबंधन, समय और लागत की बचत

*** (एक्जिबिटर के अपरूवल के बाद ही अपॉइंटमेंट की पृष्ठि की जाएगी)**

विजिटर के लिए शुल्क लागू नहीं

- IIJS 2019 और सिग्नेचर 2020 के रजिस्टरर्ड और अपरूवड विजिटर – कृपा कर [यहाँ क्लिक](#) या www.gjepc.org/ijsvirtual पर विजिट करें और आप जीजेईपीसी एप्प के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं।
- नए विजिटर्स - www.gjepc.org/ijsvirtual पर विजिट करें और आवश्यक दस्तावेज जीएसटी और पैन कार्ड जमा करें।

पंजीकरण करने के बाद IIJS वर्चुअल शो 2020 से जुड़ने के लिए आपको कन्फर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा।

IIJS वर्चुअल शो से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे [1800-103-4353](tel:1800-103-4353) पर संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं / या हमें [+91-7208048100](tel:+91-7208048100) पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं; या ijjs@gjepcindia.com पर हमें ईमेल लिख सकते हैं। सदस्य किसी अन्य सहायता के लिए www.gjepc.org/helpdesk पर GJEPC सचिवालय के साथ बैठक करने के लिए एक टिकट भी ले सकते हैं।

हम **IIJS वर्चुअल शो 2020** में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

सब्यसाची राय
कार्यकारी निदेशक



The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Unit G2-A, Trade Center, Opp. BKC Telephone Exchange, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400051

Call Centre No. : 1800-103-4353 Missed Call No: +91 7208048100

Website: <https://www.ijjs.org/>

[Unsubscribe](#)

